

## कंपनी का लेबल लगाकर बेची जा रही नकली कीटनाशक



Publish Date: Thu, 15 Oct 2020 12:50 AM (IST) Author: Jagran

बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जोगीठेर में कंपनी का लेबल लगाकर नकली कीटनाशक दवाएं बेची जा रही थीं। कंपनी के मुख्य जांचकर्ता को जब भनक लगी तो उन्होंने बीसलपुर कोतवाली पुलिस को साथ लेकर नकली दवा विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर लाखों रुपये की कीटनाशक दवाएं पकड़ लीं। पुलिस ने दुकान को बंद करवा दिया है।

पीलीभीत, जेएनएन : बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जोगीठेर में कंपनी का लेबल लगाकर नकली कीटनाशक दवाएं बेची जा रही थीं। कंपनी के मुख्य जांचकर्ता को जब भनक लगी तो उन्होंने बीसलपुर कोतवाली पुलिस को साथ लेकर नकली दवा विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर लाखों रुपये की कीटनाशक दवाएं पकड़ लीं। पुलिस ने दुकान को बंद करवा दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

क्षेत्र के ग्राम जोगीठेर में एक वर्ष पहले शाहजहांपुर निवासी युवक ने दुकान खोलकर हरियाणा के गुरुग्राम की कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी पीआई का लेबल लगाकर नकली दवाओं की बिक्री कर रहा था इस मामले की सूचना जब कंपनी के प्रबंधक को मिली तो उन्होंने कंपनी के मुख्य जांचकर्ता जीतू शर्मा को जांच सौंपी। जांच के दौरान जब वह ग्राम जोगीठेर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक दुकान पर देखा कि उनकी कंपनी की दवाएं बिक्री की जा रही है। वह कोतवाली बीसलपुर आए और उन्होंने कोतवाली पुलिस को इस मामले की सूचना देने के बाद हलका इंचार्ज को लेकर अपने साथ लेकर उसी दुकान पर जा धमके जहां उनकी कंपनी के नाम से दवाएं बिक्री की जा रही थी। कंपनी के जांचकर्ता जीतू शर्मा ने बताया कि उनकी पीआई कंपनी की भारी मात्रा में दवाएं दुकान में पाई गई हैं, जिन्हें बिक्री कर रहे एक युवक से पूछताछ करने के बाद उसे कोतवाली बैठाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा दुकान में वायर कंपनी मुंबई की भी दवाएं पाई गई है। पुलिस ने दुकान में ताला डालकर चाबी अपने पास रख ली है। अभी दुकान को सील नहीं किया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायत पर कंपनी के अधिकारी के साथ पुलिस को भेजा गया था। दुकान में मौजूद युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/pilibhit-dupcate-madecin-sail-in-shop-20879453.html>